



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2823]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935

No. 2823]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3712 (अ). — केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 472 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बिजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 30.340 कि.मी. से 102.000 कि. मी. (सोलापुर से बीजापुर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 29 मार्च, 2013 को “(1) डेक्कन हेरॉल्ड (अंग्रेजी)” और तारीख 29 मार्च, 2013 को “विजय कर्नाटक (कन्नड़)” में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया हैं और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 30.340 कि. मी. से 102.000 कि. मी. (सोलापूर-बिजापुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				3 क में प्रकाशन के अनुसार	जे एम और आर/आर ओ आर के अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिजापुर	इंडी	होर्ती	368	368 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	5913	धानव्वा निंजप्पा कैनुर
					368 / ब	निजी	गैरकृषी	1950	अमितकुमार नामदेव राठोड
				369	369 / 7	निजी	कृषी (सिंचन)	2396	1) श्रीशैल मल्लिकार्जुन मंगलवेडे
									2) संगमेश मल्लिकार्जुन मंगलवेडे
									3) गिरीष चंद्रकांत मंगलवेडे मॉ. मल्लम्मा
					369 / 8	निजी	कृषी (सिंचन)	1068	तिपण्णा संगप्पा तलवार
				386 भाग	386 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1156	मलकण्णा शंकरप्पा मंडली
					386 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)	150	तुकाराम चंद्रम बबलाद
					386 / 3	निजी	कृषी (सिंचन)	741	सोमण्णा चंद्राम बबलाद
					386 / 4	निजी	कृषी (सिंचन)	2362	मलकण्णा शंकरप्पा मंडली
					386 / 5	निजी	कृषी (सिंचन)	89	रेवणसिध्दप्पा शंकरेप्पा मंडली
				387, 387 भाग	387 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1572	मलकेरी अण्णप्पा तेली
					387 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)	10	विजयलक्ष्मी सिध्दण्णा कैनुर
					387 / 3	निजी	कृषी (सिंचन)	2537	भिमव्वा ईश्वरप्पा लमाणी
				388	388 / 5	निजी	कृषी (सिंचन)	1055	शरणप्पा जक्कप्पा यलसंगी
				407	407 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	435	रेयप्पा गुरप्पा भोसगी
					407 / 2अ	निजी	कृषी (सिंचन)		रेयप्पा गुरप्पा भोसगी
					407 / 2ब	निजी	कृषी (सिंचन)		गुरुनाथ गुरुप्पा भोसगी
				408	408	निजी	कृषी (सिंचन)	305	शरणप्पा जेटयप्पा यलसंगी
				455	455	निजी	कृषी (शुष्क)	6830	नागप्पा चन्नप्पा उप्पलदिन्नी
				459 भाग	459 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	9902	सोमण्णा सिद्राय भोसगी
					459 / 2	निजी	कृषी		सावित्री सिद्राय भोसगी

				459 / 3, 459 / 5		(सिंचन)		सोमण्णा सिद्राय भोसगी जेठयप्पा सिद्राय भोसगी मलप्पा सिद्राय भोसगी निल्लव्वा हणमंत विरे महादेवी सिद्राय भोसगी महानंदा चन्नप्पा रूगी अण्णप्पा सिद्राय भोसगी बसवराज सिद्राय भोसगी
			460	460	सरकारी	कृषी (शुष्क)	6420	मुफ्त गायरान
			466	466 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	30	सुखाराम अंदु लमाणी और अन्य
				466 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)		1) भिमु वालु लमाणी 2) नमु वालु लमाणी
			467	467 / 1अ	निजी	कृषी (शुष्क)	215	बसु भिमु लमाणी
				467 / 1ब1	निजी	कृषी (शुष्क)		1) देशु भिमु लमाणी 2) ईश्वरगौडा रामनगौडा पाटील 3) गोपाल मुंकुंद कोट
				467 / 1ब2	निजी	कृषी (शुष्क)		बापुगौडा ईश्वरगौडा पाटील
				467 / 2अ	निजी	कृषी (शुष्क)	35	ईश्वरगौडा रामगौडा पाटील
				467 / 2ब	निजी	कृषी (शुष्क)	255	मेगु लच्चू लमाणी
			468	468 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	4373	1) पिरु रामचंद्रा लमाणी 2) हिरु रामचंद्रा लमाणी
				468 / 2अ	निजी	कृषी (सिंचन)		मदगौडा विठोबा बगली
				468 / 2ब	निजी	कृषी (सिंचन)		लालु रामचंद्रा लमाणी
			469	469	सरकारी	कृषी (शुष्क)	1442	पी.डब्ल्यू.डी, मुरुम कॉरी
			470	470 / 1	निजी	कृषी (शुष्क)	1112	नारायण गणपती राठोड
				470 / 2	निजी	कृषी (शुष्क)		पिरु रामचंद्रा लमाणी
			471	471 / 1	सरकारी	कृषी (शुष्क)	25	मुरुम कॉरी (सरकारी)
			472	472ब / 7	निजी	कृषी (शुष्क)	25	धनसिंग सोमु लमाणी
			481	481 / 1अ / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	3075	रामु सोमू लमाणी
				481 / 1अ / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		कृष्णा रेखु लमाणी
				481 / 1अ / 3	निजी	कृषी (सिंचन)		विठ्ठल रेखू लमाणी
			487	487	निजी	कृषी (शुष्क)	3542	1) शंकर रेखु लमाणी 2) गंग्राम रेखू लमाणी

								3) धनसिंग रेखू लमाणी
			488	488 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	3744	कृष्णात गोपाल लमाणी
				488 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		नामदेव गोपाल लमाणी
			494	494 / 1ब / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	2364	मानसिंग उमलु लमाणी
				494 / 1ब / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		मल्लेशी विठ्ठल पथर
				494 / 2	निजी	कृषी (सिंचन)		गंग्राम उमलू लमाणी
				494 / 3अ	निजी	कृषी (सिंचन)		मल्लेशी विठ्ठल पथर
				494 / 4अ / 1	निजी	कृषी (सिंचन)		प्रेमा सोमण्णा राठोड
								तारासिंग सोमु लमाणी
			505 / 1	505 / 1	निजी	कृषी (सिंचन)	1742	श्रीशैल नागप्पा बबलादी
			505 / 2अ	505 / 2अ	निजी	कृषी (सिंचन)	1020	कल्लप्पा रेवप्पा बबलादी
			505 / 2ब	505 / 2ब	निजी	कृषी (सिंचन)	12	शिवप्पा रेवप्पा बबलादी
						कुल—:	67902	

[फा.सं. भाराराप्रा / पीआईयू / एसएलपी / एलए / 15012 / 10]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2013

S.O. 3712 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 472 (E) dated 27th February, 2013 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.13 on the stretch of land from Km. 30.340 to Km. 102 (Solapur to Bijapur Section) in Bijapur District in the State of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in “(1) Deccan Herald (English)” dated 19th March, 2013, “(2) Vijay Karnataka (Kannada)” dated 29th March 2013 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from K.M. 30.340 to K.M. 102 (Solapur to Bijapur Section) on the National Highways No. 13 in the State of Karnataka

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey Numbers		Type of land	Nature of land	Area in square meters	Name of the land owner/Interested persons
				As notified in 3A	As per JMC & RoR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bijapur	Indi	Horti	368	368/1	Private	Agriculture (Dry)	5913	Danawwa W/o Nijappa Khainur
					368/B	Private	Non-Agriculture	1950	Amitkumar S/o Namadev Rathod
				369	369/7	Private	Agriculture (Irrigated)	2396	1) Shrishail S/o Mallikarjun Mangalawede
									2) Sangamesh S/o Mallikarjun Mangalawede
									3) Girish Chandrakant Mangalawede M/G Mother Mallamma
				369/8	Private	Agriculture (Irrigated)	1068		Tippanna Sangappa Talawar
				386 P	386/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1156	Malakanna Shankreppa Mandali
					386/2	Private	Agriculture (Irrigated)	150	Tukaram Chandram Babalad
					386/3	Private	Agriculture (Irrigated)	741	Somanna Chandram Babalad
					386/4	Private	Agriculture (Irrigated)	2362	Malakanna Shankreppa Mandali
					386/5	Private	Agriculture (Irrigated)	89	Revanasiddappa S/o Shankreppa Mandali
				387, 387 P	387/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1572	Malakari S/o Annappa Teli
					387/2	Private	Agriculture (Irrigated)	10	Vijayalaxmi W/o Siddanna Khainur
					387/3	Private	Agriculture (Irrigated)	2537	Bhimavva W/o Ishwarappa Lamani
				388	388/5	Private	Agriculture (Irrigated)	1055	Sharanappa S/o Jakkappa Yalasang
				407	407/1	Private	Agriculture (Irrigated)	435	Rayappa S/o Gurappa Bhosagi
					407/2 A	Private	Agriculture (Irrigated)		Rayappa S/o Gurappa Bhosagi
					407/2 B	Private	Agriculture (Irrigated)		Gurunath S/o Gurappa Bhosagi
				408	408	Private	Agriculture (Irrigated)	305	Sharanappa S/o Jetteppa Yalasangi

				455	455	Private	Agriculture (Dry)	6830	Nagappa Channappa Uppaladinni
				459 P	459/1	Private	Agriculture (Irrigated)	9902	Somanna S/o Shidray Bhosagi
					459/2				Savitri Shidray Bhosagi
					459/3				Somanna Shidray Bhosagi
					459/5				Jetteppa Shidray Bhosagi
									Mallappa Shidray Bhosagi
									Neelawwa Hanamant Weere
									Mahadevi Shidray Bhosagi
									Mahananda Channappa Rugi
									Annappa Shidray Bhosagi
									Basavaraj Shidray Bhosagi
				460	460	Govt.	Agriculture (Dry)	6420	Mofat Gayarana
				466	466/1	Private	Agriculture (Dry)	30	Sukharam S/o Anadu Lamani & Others
					466/2	Private	Agriculture (Dry)		1) Bhimu S/o Walu Lamani 2) Namu S/o Walu Lamani
				467	467/1 A	Private	Agriculture (Dry)	215	Basu Bheemu Lamani
					467/1 B1	Private	Agriculture (Dry)		1) Desu Bheemu Lamani
									2) Ishwaragouda Ramanagouda Patil
									3) Gopal Mukund Khot
					467/1 B2	Private	Agriculture (Dry)		Bapugouda Ishwaragouda Patil
					467/2 A	Private	Agriculture (Dry)	35	Ishwaragouda Ramanagouda Patil
					467/2 B	Private	Agriculture (Dry)	255	Megu Lachu Lamani
				468	468/1	Private	Agriculture (Irrigated)	4373	1) Peeru Ramachandra Lamani
									2) Heeru Ramachandra Lamani
					468/2 A	Private	Agriculture (Irrigated)		Madagond Vithoba Bagali
					468/2 B	Private	Agriculture (Irrigated)		Lalu Ramachandra Lamani
				469	469	Govt.	Agriculture (Dry)	1442	PWD Morum Quarry
				470	470/1	Private	Agriculture (Dry)	1112	Narayan S/o Ganapati Rathod
					470/2	Private	Agriculture (Dry)		Peeru S/o Ramachandra Lamani
				471	471/1	Govt.	Agriculture (Dry)	25	Murum Quarry (Govt.)
				472	472B/7	Private	Agriculture (Dry)	25	Dhanasing S/o Somu Lamani
				481	481/1 A/1	Private	Agriculture (Irrigated)	3075	Ramu Somu Lamani
					481/1 A/2	Private	Agriculture (Irrigated)		Krishna S/o Rekhu Lamani

					481/1 A/3	Private	Agriculture (Irrigated)		Vithal Rekhu Lamani
				487	487	Private	Agriculture (Dry)	3542	1) Shankar S/o Rekhu Lamani
									2) Gangarm S/o Rekhu Lamani
									3) Dhanasing S/o Rekhu Lamani
				488	488/1	Private	Agriculture (Irrigated)	3744	Kashinath Gopal Lamani
					488/2	Private	Agriculture (Irrigated)		Namadev Gopal Lamani
				494	494/1 B/1	Private	Agriculture (Irrigated)	2364	Manasing Umalu Lamani
					494/1 B/2	Private	Agriculture (Irrigated)		Malleshi Vithal Pattar
					494/2	Private	Agriculture (Irrigated)		Gangaram Umalu Lamani
					494/3 A	Private	Agriculture (Irrigated)		Malleshi S/o Vithal Pattar
					494/4 A/1	Private	Agriculture (Irrigated)		Prema W/o Somanna Rathod
									Tarasing S/o Somu Lamani
				505	505/1	Private	Agriculture (Irrigated)	1742	Shrishail Nagappa Babaladi
					505/2 A	Private	Agriculture (Irrigated)	1020	Kallappa Revappa Babaladi
					505/2 B	Private	Agriculture (Irrigated)	12	Shivappa Revappa Babaladi
							Total	67902	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/15012/10]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.